



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

सं. भा.आ.प.-34(41)/2016-मेडि./162904.-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2017" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में "पात्रता संबंधी मापदंड" के अंतर्गत खंड 1 में पॉइंट संख्या 6 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाए:

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियां:

टिप्पणी : पुनः बशर्ते कि ऊपर क्रम सं. (3), (4) और (5) पर यथाउल्लिखित किसी स्वायत्त निकाय/सोसायटी/न्यास द्वारा स्थापित किसी मेडिकल कॉलेज को एक कंपनी में भी रूपांतरित किया जा सकता है।

- "अर्हता संबंधी मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

"पुनः बशर्ते कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ग) में यथापरिभाषित महानगरीय क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज के पास, उनके द्वारा कब्जे में रखे गए और उनके स्वामित्व वाले एकात्मक भूखंड में, लागू होने वाली "न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली" के अनुसार अपेक्षित मेडिकल कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल, आवासीय क्वार्टर्स और अन्य अवसंरचना सहित पर्याप्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा, यह निर्मित क्षेत्र स्थानीय शहरी कानूनों की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए और इसकी भवन योजना का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से कराया जाएगा।"

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./389/16(100)]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 22/10/1999, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/02/2010, 16/04/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015, 14/01/2016, 08/02/2016 और 18/03/2016 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2017

No. MCI 34(41)/2016-Med./162904 – In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely:-

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations, (Amendment) 2017”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “**Establishment of Medical College Regulations, 1999**”, in Clause 1 under “Eligibility Criteria”, point no. 6 shall be substituted as under:-

- (6) All Companies registered under the Companies Act, 1956.

Note: Provided further that any Medical College set up by an Autonomous Body/Society/Trust as at Sl. No. (3), (4) and (5) above can also be converted into a company.

3. In Clause 2(2) under the heading “QUALIFYING CRITERIA”, the following shall be added:

“ Further provided that, in Metropolitan areas, as defined in Article 243P(c) of the Constitution of India the medical college should have the total built up area required for adequate infrastructure, including medical college, affiliated teaching hospital, residential quarters and other infrastructure required as per the applicable Minimum Standard Requirement Regulations, in the unitary piece of land owned and possessed by them. Further such built-up area should be in conformity with the requirement of local urban laws and shall have approval of building plan from the competent authority.”

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c.
[ADVT.-III/4/Exty./389/16(100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999, were published in Part – III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/99, 01/08/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/02/2010, 16/04/2010, 14/10/2011, 04/06/2012, 01/10/2012, 19/03/2014, 22/08/2014, 19/10/2015, 14/01/2016, 08/02/2016 & 18/03/2016.